



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2004/पौष 18, 1925

No. 23]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2004/PAUSA 18, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 25(अ).— आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 733(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में, क्रम संख्या 20 और 89 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :—

“अनुसूची-I

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
20	मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-IX	मुम्बई	(i) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XIV (ii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XV (iii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XVI (iv) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXVI (v) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXVII (vi) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXVIII (vii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXIX
89	मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-XIII	मुम्बई	(i) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXIV (ii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXV”

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 3/2004/फा.सं.187/21/2003-आयकर नि. I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2004

(Income-tax)

S.O. 25(E).—In exercise of the powers conferred by Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, number S.O. 733(E) dated the 31st July, 2001 as amended from time to time, namely:—

In the Schedule-I to the said notification, for serial numbers 20 and 89 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE I

Sl. No.	Designation of Income-tax Authorities	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai-IX	Mumbai	(i) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XIV (ii) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XV (iii) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XVI (iv) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XXVI (v) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XXVII (vi) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XXVIII (vii) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XXIX
89	Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai XIII	Mumbai	(i) Commissioner of Income Tax Mumbai-XXIV (ii) Commissioner of Income Tax, Mumbai-XXV”

2. This notification will take force with effect from the date of publication in the Office Gazette.

[Notification No. 3/2004/F. No. 187/21/2003-ITA.I]

DEVI SHARAN SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 26(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-IX, को उनके अधीनस्थ उक्त अधिनियम की धारा 2(7क) के अन्तर्गत

यथा-परिभाषित सभी अथवा किन्हीं कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 4/2004/फा. सं. 187/21/2003-आयकर नि. I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

(Income-tax)

S.O. 26(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby authorises the Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai-IX, to issue orders, in writing, for exercise of powers and performance of functions under the Income-tax Act, 1961, concurrently by all or any of the Assessing Officers as defined under Section 2(7A) of the said Act, subordinate to him.

2. This notification will take force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 4/2004/F. No. 187/21/2003-ITA.I]

DEVI SHARAN SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 27(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2001 समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः अनुसूची-I में,—

- (i) क्रम सं. 190 पर "प्रादेशिक क्षेत्र" शीर्ष के अंतर्गत कॉलम संख्या 4 में, प्रविष्टि नामतः, "600037-ओ.टी.ए." को हटा दिया जाए।
 - (ii) क्रम सं. 193 पर, "प्रादेशिक क्षेत्र" शीर्ष के अंतर्गत कॉलम सं. 4 पर "600034-नुगम्बक्कम" और "600038-आई सी एफ कालोनी" प्रविष्टियों के मध्य निम्नलिखित को शामिल किया जाए, नामतः "600037-मोगाम्पेयर" .
2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 5/2004/फा. सं. 187/15/2003-आयकर नि. I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

(Income-tax)

S.O. 27(E).— In exercise of the powers conferred by Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, number S.O. 732(E) dated 3rd July, 2001 as amended from time to time, namely :—

In the Schedule I,—

- (i) at serial number 190, in column No. 4 under the head "Territorial Area", the entry namely, "600037-OTA" shall be deleted;

- (ii) at serial number 193, in column No. 4 under the head "Territorial Area", between the entries "600034-Nugambakkam" and "600038-ICF Colony", the following shall be inserted, namely :—
"600037-Mogappair".

2. This notification will take force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 5/2004/F.No. 187/15/2003-ITA.]

DEVI SHARAN SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 28(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 3 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

- (i) अनुसूची-I में, क्रम संख्या 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

अनुसूची-I

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र
1	2	3	4
108	आयकर आयुक्त, पुणे-III	पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में— (क) पुणे जिले में निम्नलिखित नाम के क्षेत्र (i) भवानी पेट (ii) न्यू टिम्बर मार्किट (iii) बुधवार पेट (iv) शुक्रवार पेट (v) रविवार पेट (vi) बारामती तालुका (vii) दौन्द तालुका, तथा (viii) इन्डापुर तालुका (ख) आयकर आयुक्त, पुणे-V के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों से भिन्न पुणे जिला (ग) सतारा जिला
व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग		मामले अथवा मामलों का वर्ग	
5		6	
(क) कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा सार्वजनिक न्यास से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा कारोबार से आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अन्तर्गत निवास कर रहे हैं, (ख) कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा सार्वजनिक न्यास से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा कारोबार से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अन्तर्गत है,		(क) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन से भिन्न है" (ख) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत विधिक, चिकित्सा, इंजीनियरी, वास्तु शिल्प व्यवसाय अथवा लेखाविधि का व्यवसाय अथवा तकनीकी की परामर्शी सेवा अथवा आन्तरिक साज-सज्जा अथवा कोई अन्य व्यवसाय है जिसे बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। (ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है तथा जो	
(ग) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (ख) अथवा			

5

6

(ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा कारोबार से आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं,

(घ) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अन्तर्गत है,

(ङ) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं,

(च) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है,

(छ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां होने के कारण कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है।

(i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा लेखा नियंत्रक (दक्षिणी कमान), पुणे तथा रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारी हैं तथा जो रक्षा लेखा (अधिकारी तथा समाशोधन केन्द्र) पुणे, पुणे विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा के अधीन हैं अथवा

(ii) पेंशनभोगी हैं।

(घ) कालम (5) की मद (ङ) (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2004/फा.सं.187/3/2003-आयकर नि. 1]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

(Income tax)

S.O. 28(E).— In exercise of the powers conferred by Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct taxes, number S.O. 732(E) dated 3rd July, 2001, as amended from time to time, namely :—

(i) In the Schedule-I, for serial number 108 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Designation of the officer	Head Quarters	Territorial Area
(1)	(2)	(3)	(4)
108	Commissioner of Income-tax, Pune-III	Pune Maharashtra	In the State of Maharashtra (a) in the District of Pune, area with the name of: (i) Bhawani Peth; (ii) New Timber Market; (iii) Budhwar Peth; (iv) Shukrawar Peth; (v) Raviwar Peth; (vi) Baramati Taluka; (vii) Daund Taluka; and (viii) Indapur Taluka

(1)	(2)	(3)	(4)
			(b) District of Pune, other than areas under the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Pune-V; (c) District of Satara;
Persons or classes of persons		Cases or classes of cases	
(5)		(6)	
(a) Persons referred to in items (a) of column (6), being other than companies, co-operative societies and public trust, deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);		(a) Persons, whose principal Source of income is other than "Salaries".	
(b) persons referred to in item (a) of column (6), being other than companies, co-operative societies and public trust, deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);		(b) persons whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under subsection (1) of Section 44AA of the Income-tax Act, 1961.	
(c) persons referred to in item (b) or (c) of column (6), being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);		(c) individuals, whose principal source of income is from "Salaries", and who are (i) Employees of Central Government, State Government, Controller of Defence Accounts (Southern Command), Pune and Defence Accounts Department and who are under the audit control of the Field Controller of Defence Accounts (Officer and Clearing House), Pune, Pune University; or	
(d) persons referred to in item (b) of column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);		(ii) Pensioners.	
(e) persons referred to in item (d) of column (6), being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);		(d) all cases of the persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5)".	
(f) persons referred to in item (d) of column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);			
(g) persons referred to in item (d) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956, and having registered office in the area mentioned in item (c) of column (4).			

2. This notification will take force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 6/2004/F.No. 187/3/2003-ITA.I]

DEVI SHARAN SINGH, Under Secy.